

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2016 (चैत्र 20, 1938)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9—APRIL 15, 2016 (CHAITRA 20, 1938)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

---

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2016

सं. फा. 3(3)/2014—प्रशासन—संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में श्री जगमोहन सुंदरियाल, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय की नियुक्ति की समय पूर्व समाप्ति पर, राष्ट्रपति 25 फरवरी, 2016 से श्री जगमोहन सुंदरियाल को निदेशक के स्तर पर केंद्रीय मंत्री के वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग में निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य के पांच वर्ष की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 14.05.2017 तक या मंत्री के कार्यकाल तक या जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते तब तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वेतन बैंड—4 रु. 37,400—67,000/— + ग्रेड वेतन रु. 8,700/— में संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडु) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

धीरेन्द्र चौबे, अवर सचिव

## भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 4 मार्च 2016

सं. ए-19/जी-ए/122—कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 05.02.2016 की संदर्भ संख्या 14/01/2016—ई ओ (एम एम-1) तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 05.02.2016 की संदर्भ सं. 14046/20/2014 यू टी एस-1 के अनुसरण में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी दिनांक 12.02.2016 की फाइल सं. 08/03/2013/एस.1 द्वारा जारी कार्यमुक्त आदेश सं. 74 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से कार्यमुक्त कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, श्री निखिल कुमार, भा.प्र.से. (ए जी एम यू टी : 2002) को रु. 15,600—39,100/— के वेतन बैंड-3 में रु. 7,600/— के ग्रेड वेतन सहित केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत दिनांक 15.02.2016 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत निर्वाचन आयोग में एतद्वारा, उप-सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बी.सी. पात्रा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2016

संख्या ए.12023/1/2003-प्रशा.\*(वि.वि.)-पार्ट—राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में अधीक्षक (विधि) श्री बी.एन.एस.वी.एस.के. बंगारराजू को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) के पद पर रुपए 15,600—39,100/— के वेतन बैंड और रुपए 6,600/— के ग्रेड वेतन में दिनांक 16 मार्च, 2016 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारी को सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी.एम. शर्मा, उप सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 मार्च 2016

संख्या I-11014/02/2016-आई0पी0एस0-4—केन्द्र सरकार, सुश्री पी. रोहिणी प्रियदर्शनी, भा0पु0से0 (तमिलनाडु : 2012) का विवाह श्री कल्मेश्वर शिंगेनावर, भा0पु0से0 (तेलंगाना : 2012) के साथ हो जाने तथा तमिलनाडु सरकार एवं तेलंगाना सरकार के सहमति के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री पी. रोहिणी प्रियदर्शनी, भा0पु0से0 (तमिलनाडु : 2012) का स्थानान्तरण तमिलनाडु से तेलंगाना के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 21 मार्च 2016

सं. I-11014/01/2016-आई0पी0एस0-4—केन्द्र सरकार, श्री विक्रान्त पाटिल, भा0पु0से0 (तमिलनाडु : 2012) का विवाह सुश्री दीपिका एम., भा0पु0से0 (आन्ध्र प्रदेश : 2014) के साथ हो जाने तथा तमिलनाडु सरकार एवं आन्ध्र प्रदेश सरकार के सहमति के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विक्रान्त पाटिल, भा0पु0से0 (तमिलनाडु : 2012) का स्थानान्तरण तमिलनाडु से आन्ध्र प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में करती है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

## राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 21 मार्च 2016

सं. 14034/26/2015-राभा(प्रशि)(I)—राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में श्री संत राम, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर

वेतनमान पीबी-3, रु. 15,600—39,100/- + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन) में, पदोन्नति पर दिनांक 15 फरवरी 2016 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं ।

मंजुला सक्सैना, उप सचिव

सं. 14034/26/2015—राभा(प्रशि)(II)—राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के फलस्वरूप गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में सुश्री पूनम ओसवाल, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के पद पर वेतनमान पीबी-3, रु. 15,600—39,100/- + 6,600/- रु ग्रेड वेतन) में, पदोन्नति पर दिनांक 01 मार्च 2016 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं ।

मंजुला सक्सैना, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2016

सं. 23012/01/2015—आ.भा.से.—III—श्री अश्विनी मुद्गल, आई.ए.एस (एमएच : 2007) को अपना नाम अश्विनी मुद्गल से बदलकर अश्विनी अशोक मुद्गल करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, उन्हें अश्विनी अशोक मुद्गल के रूप में जाना जाएगा।

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2016

सं. 03/पीबी-पीआर/2016—मंत्रालय के दिनांक 27 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/611/5/2014 भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-II अधिकारियों की चयन सूची को भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-I में पदोन्नति स्थानापन्न करने के क्रम में, राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-II के निम्न अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तिथि से भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-I पर नियुक्त करते हैं:-

| क्र. सं. | नाम<br>(श्री/श्रीमती/कु.)      | जन्म तिथि | पदोन्नति की तिथि |
|----------|--------------------------------|-----------|------------------|
| 1.       | सुधांशु गांधी                  | 08.08.75  | 31.12.2015       |
| 2.       | राजेश कुमार                    | 14.01.73  | 31.12.2015       |
| 3.       | प्रीतम कुमार चावला             | 15.05.72  | 31.12.2015       |
| 4.       | सैय्यद ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन | 10.02.72  | 31.12.2015       |
| 5.       | कमल अरोड़ा                     | 07.07.79  | 31.12.2015       |
| 6.       | प्रमोद कुमार शर्मा             | 07.01.71  | 31.12.2015       |
| 7.       | आशु गर्ग                       | 14.01.83  | 31.12.2015       |
| 8.       | कुमार संचित                    | 28.04.84  | 31.12.2015       |
| 9.       | हेमंत गौतम                     | 09.10.85  | 31.12.2015       |
| 10.      | अजय सचदेवा                     | 15.10.73  | 31.12.2015       |
| 11.      | संजीव भल्ला                    | 24.06.74  | 31.12.2015       |
| 12.      | वीरेन्द्र कुमार                | 24.04.71  | 31.12.2015       |

2. नियुक्ति के अन्य नियम व शर्तें उसी प्रकार होंगी जो भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-I के अन्य अधिकारियों के संबंध में लागू होती हैं।

रमा कांत कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-पीआर)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2016

सं. 02/पीबी-पीआर/2016—मंत्रालय के दिनांक 24 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/07/2015 भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-II अधिकारियों की चयन सूची को भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-I में पदोन्नति स्थानापन्न करने के क्रम में, राष्ट्रपति भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-II के निम्न अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित तिथि से भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-I पर नियुक्त करते हैं:-

| क्र. सं. | नाम<br>(श्री/श्रीमती/कु.) | पदोन्नति की तिथि |
|----------|---------------------------|------------------|
| 1.       | नीरज कान्त कौशल           | 28.01.2016       |
| 2.       | परवीन जुनेजा              | 28.01.2016       |
| 3.       | राजीव सेठ                 | 28.01.2016       |
| 4.       | सुभाशीष मुखर्जी           | 28.01.2016       |
| 5.       | आनंद कुमार पिस्तिपति      | 28.01.2016       |
| 6.       | एम. राधाकृष्णन            | 28.01.2016       |
| 7.       | रोहित राजपाल              | 28.01.2016       |
| 8.       | कृति एस बुलानी            | 28.01.2016       |
| 9.       | अरविन्द कुमार वर्मा       | 28.01.2016       |
| 10.      | अवध कुमार                 | 28.01.2016       |
| 11.      | जी. जगदीश                 | 28.01.2016       |
| 12.      | विकास गुप्ता              | 28.01.2016       |
| 13.      | बामादेव दास               | 28.01.2016       |
| 14.      | रघुवीर सिंह               | 28.01.2016       |
| 15.      | अमर गोले                  | 28.01.2016       |
| 16.      | शाजी जोसेफ                | 28.01.2016       |
| 17.      | प्रमोद खेमचंदानी          | 28.01.2016       |
| 18.      | सविता गर्ग                | 28.01.2016       |
| 19.      | सीता राम गुप्ता           | 28.01.2016       |
| 20.      | कैलाश चन्दर               | 28.01.2016       |
| 21.      | निधि शर्मा कालिया         | 28.01.2016       |
| 22.      | दिनेश कुमार               | 28.01.2016       |

2. नियुक्ति के अन्य नियम व शर्तें उसी प्रकार होंगी जो भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड-I के अन्य अधिकारियों के संबंध में लागू होती हैं।

संदीप सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-II)

दिनांक 14 मार्च 2016

सं. 03/पीबी-पीआर/2016—आईएफएस (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II में स्थानापन्न पदोन्नति हेतु आईएफएस (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-III के अधिकारियों की चयन सूची से संबंधित मंत्रालय के दिनांक 23 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/08/2015 के अनुसरण में राष्ट्रपति आईएफएस (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-III के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से आईएफएस (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं:—

| क्रम सं. | कार्मिक का नाम<br>(श्रीमती/श्री) | पदोन्नति की तारीख |
|----------|----------------------------------|-------------------|
| 1.       | राजीव कुमार                      | 28.01.2016        |
| 2.       | अशोक कुमार साहू                  | 28.01.2016        |
| 3.       | मनोज चंद्र जोशी                  | 28.01.2016        |

2. नियुक्ति की अन्य निबंधन व शर्तें वही रहेंगी जो भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग ग्रेड-II के अन्य अधिकारियों के मामले में लागू हैं।

संदीप सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-II)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2016

सं. 16/पीबी-I/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री अशोक कुमार दत्ताल (जन्म तिथि 02.02.1956) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III के अधिकारी दिनांक 29 फरवरी, 2016 के अपराह्न में सेवा से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

भूपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-III)

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2016

सं. ए-35011/5/2014-एडी.ईडी)—भारत के राष्ट्रपति, श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 91), को दिनांक 26.02.2016 (अपराह्न) से 29.05.2017 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 37,400—67,000/— रु. + 10,000/— रुपए के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4 में प्रतिनियुक्ति आधार पर विशेष प्रवर्तन निदेशक, दिल्ली के रूप में नियुक्त करते हैं।

संतोष कुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2016

सं. ए. 22011/2/2016—प्रशा.ए—राष्ट्रपति, श्री गौरव कुमार झा (आईईएस : 2013) को 10.03.2016 (पूर्वाह्न) से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोबा बेसिल, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2016

सं. ए-42011/21/2015—स्था:—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.01.2016 के आदेश सं. 6/16/2015 सीएस.I(एस) के अनुसरण में, श्री विजय कुमार वर्मा, अनुभाग अधिकारी (एसओएसएल : 2015 (एसक्यू) को इस मंत्रालय की नामावली में 28.01.2016 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक शामिल किया जाता है।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव,

दिनांक 3 फरवरी 2016

सं. ए-46011/02/2014—स्था:—राष्ट्रपति, श्री सौरभ कुमार सिन्हा को वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई में वेतनमान 15,600—39,100, रु. + ग्रेड वेतन 6,600/— रु. के पे बैंड-3 में सीधी भर्ती के आधार पर दिनांक 18.12.2015 (पूर्वाह्न) से उप-निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त करते हैं। वह दो साल की अवधि के लिए परीक्षा पर होंगे।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2016

संख्या ए-38011/9/2015—स्थापना—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के श्री गुलशन लाल चोपड़ा, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) दिनांक 29 फरवरी, 2016 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
(राष्ट्रीय मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र)

नोएडा, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

सं. A-11019/11/2014(16)—एनएमआरएफ(स्था.)—राष्ट्रपति, डॉ. आशीष रौतरे, वैज्ञानिक 'डी' (पीबी-3, रु. 15,600—रु. 39,100/— + रु. 7,600/— रु.) को 01.01.2016 से अगले आदेशों तक संशोधित सुनम्य पूरक योजना (एमएफसीएस) के अंतर्गत स्व-स्थाने (In-situ) आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित (वैज्ञानिक) के वैज्ञानिक 'ई' (PB-4 रु. 37,400—रु. 67,000/—) with Grade Pay रु. 8700/—) के ग्रेड में पदोन्नत/अपग्रेड करते हैं।

एन.के.भगत, उप-सचिव

सं. A-11019/11/2014(12)—एनएमआरएफ (स्था.)—राष्ट्रपति, डॉ. शाजी मोहन दास, वैज्ञानिक 'ई' (PB-4 रु. 37,400—रु. 67,000/— with Grade Pay रु. 8,700/—) को 01.01.2016 से अगले आदेशों तक संशोधित सुनम्य पूरक योजना (एमएफसीएस) के अंतर्गत स्व-स्थाने (In-situ) आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित (वैज्ञानिक) के वैज्ञानिक 'एफ' (PB-4 रु. 37,400—रु. 67,000/—) with Grade Pay रु. 8,900/—) के ग्रेड में पदोन्नत/अपग्रेड करते हैं।

एन.के.भगत, उप-सचिव

सं. A-11019/11/2014(19)—एनएमआरएफ(स्था.)—राष्ट्रपति, श्री एम एन राघवेंद्र श्रीवाथसा, वैज्ञानिक 'डी' (पीबी-3, रु. 15,600—रु. 39,100/— + रु. 7,600/—) को 01.01.2016 से अगले आदेशों तक संशोधित सुनम्य पूरक योजना (एमएफसीएस) के अंतर्गत स्व-स्थाने (In-situ) आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित (वैज्ञानिक) के वैज्ञानिक 'ई' (PB-4 रु. 37,400—रु. 67,000/— with Grade Pay रु. 8700/—) के ग्रेड में पदोन्नत/अपग्रेड करते हैं।

एन.के.भगत, उप-सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2016

सं. ए. 12025/75/2014—सीएचएस—III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. आशीष कुमार कक्कड़ को दिनांक 16.09.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में भेषज गुण विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/130/2014—सीएचएस—III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. ज्योति को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर 01.10.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 मार्च 2016

सं. ए. 12025/72/2011—सीएचएस—III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. स्पर्श गुप्ता को दिनांक 07.08.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में भेषज गुण विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2016

सं. 38017/1/2016—विपणन—1—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन बैंड-3 में (15,600—39,100/—) + ग्रेड वेतन रु. 5,400/— के साथ वरिष्ठ विपणन अधिकारी (वर्ग-I) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

1. श्री एम. पी. वर्मा 19.02.2016 (पूर्वाहन)
2. डॉ. राजा राम सैनी 19.02.2016 (पूर्वाहन)
3. डॉ. वी. एस. यादव 19.02.2016 (अपराहन)
4. श्री डी. वी. नाइक 19.02.2016 (अपराहन)

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

संख्या—38017/1/2016—विपणन—I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सी. नंदैया, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, डी.एम.आई, प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद से दिनांक 29.2.2016 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

संख्या—38017/1/2016—विपणन—I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एन. बसवराजू, वरिष्ठ विपणन अधिकारी (ग्रुप—III), उप कार्यालय, रायपुर से दिनांक 29.2.2016 (अपराहन) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मीना के. केरकेट्टा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2016

सं. 1-27/2012—आईडी—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार तथा इस मंत्रालय की दिनांक 29 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग), भारत सरकार ने श्री सागर प्रीत हुड्डा, निदेशक(खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) को तत्काल प्रभाव से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के निम्नलिखित स्टेडिया के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है:—

1. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली
2. इंदिरा गांधी खेल परिसर, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
3. मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम, निकट इंडिया गेट, नई दिल्ली
4. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर, वेलिंग्टन क्रिसेंट रोड, नई दिल्ली
5. डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद, नई दिल्ली।

दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले अन्य भवनों, परिसरों, रिहाइशी आवास तथा सुविधाओं के लिए सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे।

उक्त अधिकारी अपने वर्तमान कार्य के अतिरिक्त संपदा अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

विनोद कुमार, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2016

सं. ई(जी.पी.)2012/3/8 (यातायात)—राष्ट्रपति महोदय, श्री देबाशीष नस्कर (अ.जा.) जो कि दक्षिण पूर्व रेलवे के यातायात विभाग में ग्रुप 'बी' अधिकारी है, को 04.04.2014 से, भारतीय रेल यातायात विभाग (आई.आर.टी.एस.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान (पैनल वर्ष 2013-14) में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री देबाशीष नस्कर (अ.जा.) 01.02.2016 से ही कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

सुमन शर्मा, निदेशक, स्था. (राज.पदो.)

दिनांक 21 मार्च 2016

शुद्धि-पत्र

सं. ई(जी.पी.) 2014/3/8—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-02-2016 द्वारा अधिसूचित 2014-15 के पैनल के क्र.स. 26 में लिखा गया नाम 'फैयाज़ मोहम्मद' को 'फैज़ मोहम्मद' पढ़ा जाए।

सुमन शर्मा, निदेशक, स्था. (राज.पदो.)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 मार्च 2016

सं. 6/3/2016-प्रशा. I —राष्ट्रपति द्वारा श्री रघुनाथ को दिनांक 02 फरवरी, 2016 के पूर्वाह्न से रु. 15,600—39,100/- के वेतन बैंड में रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन के साथ, तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री रघुनाथ, अवर सचिव की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.02.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/3/2015-सीएस.I (U) में उल्लिखित नियमों व शर्तों से अनुशासित होगी।

डी. चौधरी, अवर सचिव

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 26th February 2016

No. F.3(3)/2014-Admn.—On premature cessation of assignment of Shri Jagmohan Sundriyal, Director, Rajya Sabha Secretariat as Officer on Special Duty to the Minister of Parliamentary Affairs (Shri M. Venkaiah Naidu), President is pleased to appoint Shri Jagmohan Sundriyal as Private Secretary to the Minister of Parliamentary Affairs (Shri M. Venkaiah Naidu) in PB-4 Rs.37400-67000 + GP 8700 w.e.f. 25<sup>th</sup> February, 2016 for the balance period of five years of working as PS/OSD in the personal staff of Union Minister i.e. upto 14.05.2017 at the level of Director or coterminus basis with the Minister or till he ceases to function as PS to the Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

D. CHOUBEY, Under Secy.

## SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 4th March 2016

No. A-19/G-A/122—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training) Reference No. 14/1/2016-EO(MM-I) dt. 05.02.2016 and Ministry of Home Affairs Ref. No. 14046/20/2014 UTS-I Dt. 05.02.2016 and consequent upon having been relieved from the Government of NCT of Delhi vide Relieving Order No. 74 issued vide No. F. 8/03/2013/S.I dated 12.02.2016 issued by Services Department, Government of NCT of Delhi, Shri Nikhil Kumar, IAS (AGMUT: 2002), is hereby appointed as Deputy Secretary in PB-3, Rs. 15,600—39,100 with G. P. Rs. 7,600/-, in Election Commission of India w.e.f 15.02.2016 (F/N), under Central Staffing Scheme, for four years or until further orders, whichever is earlier.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 16th March 2016

No.A.12023/1/2003-Admn.I(L.D.)-Part—The President is pleased to appoint Shri B.N.S.V.S.K. Bangarraju, Superintendent (Legal) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Assistant Legislative Counsel (Grade- IV of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs.15,600—39,100 plus Grade Pay of Rs.6,600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 16<sup>th</sup> March, 2016 or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on the above mentioned officer any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative Counsel (Grade IV of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

B.M. SHARMA, Deputy Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 17th March 2016

No. I-11014/02/2016-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-Rule (2) of Rule 5 of Indian Police Service (Cadre) Rules-1954, and with the concurrence of the Government of Tamil Nadu, and the Government of Telangana, the Central Government hereby transfers Ms. P. Rohini Priyadarshini, IPS (TN:2012) from Tamil Nadu to the IPS Cadre of Telangana on the grounds of her marriage with Shri Kalmeshwar Shingenavar, IPS (TG:2012)

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 21st March 2016

No. I-11014/01/2016-IPS.IV—In exercise of the powers conferred under Sub-Rule (2) of Rule 5 of Indian Police Service (Cadre) Rules-1954, and with the concurrence of the Government of Tamil Nadu, and the Government of Andhra Pradesh, the Central Government hereby transfers Shri Vikrant Patil, IPS (TN:2012) from Tamil Nadu to the IPS Cadre of Andhra Pradesh on the grounds of his marriage with Ms. Deepika M. IPS (AP:2014).

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy

## DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 21st March 2016

No. 14034/26/2015-OL(Trg)(i)—The President, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee is pleased to appoint Shri Sant Ram, Assistant Director (Hindi Typewriting & Hindi Stenography) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, as Deputy Director (Hindi Typewriting & Hindi Stenography) in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15600—39100/- + Grade Pay 6,600/- Rs.) on promotion, with effect from 15th February, 2016 (F.N.).

MANJULA SAXENA, Dy. Secy.

No. 14034/26/2015-OL(Trg)(ii)—The President, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee is pleased to appoint Ms. Poonam Oswal, Assistant Director (Hindi Typewriting & Hindi Stenography) in Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, as Deputy Director (Hindi Typewriting & Hindi Stenography) in the Pay Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay 6,600/- Rs.) on promotion, with effect from 1st March, 2016 (F.N.).

MANJULA SAXENA, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 21st March 2016

No. 23012/01/2015-AIS-III—Shri Ashwani Mudgal, IAS (MH: 2007) has been permitted to change his name from Ashwani Mudgal to Ashwin Ashok Mudgal. He will accordingly be recognised as Ashwin Ashok Mudgal.

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 11th February 2016

No. 03/PB-PR/2016—In pursuance of Ministry's OM No. Q/ CAD/611/5/2014 dated 27<sup>th</sup> January, 2016 Select list of officers of Grade-II of Stenographers' Cadre of IFS (B) for officiating promotion to Grade I of Stenographers' Cadre of IFS (B), the President is pleased to appoint the following officer belonging to Grade II Stenographers' Cadre of IFS (B) to officiate in Grade I of Stenographers' Cadre of IFS (B) with effect from the date mentioned against his name:—

| S.No. | Name of the official<br>(Smt./Shri) | Date of Birth | Date of promotion |
|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1.    | Sudhanshu Gandhi                    | 08.08.75      | 31.12.2015        |
| 2.    | Rajesh Kumar                        | 14.01.73      | 31.12.2015        |
| 3.    | Pritam Kumar Chawla                 | 15.05.72      | 31.12.2015        |
| 4.    | Syed Khwaja Moinuddin Hussaine      | 10.02.72      | 31.12.2015        |
| 5.    | Kamal Arora                         | 07.07.79      | 31.12.2015        |
| 6.    | Pramod Kumar Sharma                 | 07.01.71      | 31.12.2015        |
| 7.    | Ashu Garg                           | 14.01.83      | 31.12.2015        |
| 8.    | Kumar Sanchit                       | 28.04.84      | 31.12.2015        |
| 9.    | Hemant Gautam                       | 09.10.85      | 31.12.2015        |
| 10.   | Ajay Sachdeva                       | 15.10.73      | 31.12.2015        |
| 11.   | Sanjeev Bhalla                      | 24.06.74      | 31.12.2015        |
| 12.   | Virendra Kumar                      | 24.04.71      | 31.12.2015        |

2. The other terms and conditions of the appointment will be the same as applicable to other officers of Grade-I of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B).

RAMA KANT KUMAR, Administrative Officer (PB-PR)

New Delhi, the 9th March 2016

No. 02/PB-PR/2016—In pursuance of Ministry's OM No. Q/CAD/584/07/2015 dated 24<sup>th</sup> February, 2016 Select list of officers of Grade-II of Stenographers' Cadre of IFS (B) for officiating promotion to Grade I of Stenographers' Cadre of IFS (B), the President is pleased to appoint the following officers belonging to Grade II Stenographers' Cadre of IFS (B) to officiate in Grade I of Stenographers' Cadre of IFS (B) with effect from the date mentioned against their names:—

| S. No. | Name of the official(Smt./Shri) | Date of Promotion |
|--------|---------------------------------|-------------------|
| 1      | Neeraj Kant Kaushal             | 28.01.2016        |
| 2      | Parveen Juneja                  | 28.01.2016        |
| 3      | Rajeev Seth                     | 28.01.2016        |
| 4      | Subhashish Mukharjee            | 28.01.2016        |
| 5      | Anand Kumar Pistipati           | 28.01.2016        |
| 6      | M. Radhakrishnan                | 28.01.2016        |
| 7      | Rohit Rajpal                    | 28.01.2016        |
| 8      | Kriti S Bulani                  | 28.01.2016        |
| 9      | Arvind Kumar Verma              | 28.01.2016        |
| 10     | Awadh Kumar                     | 28.01.2016        |
| 11     | G. Jagdish                      | 28.01.2016        |
| 12     | Vikas Gupta                     | 28.01.2016        |
| 13     | Bamadev Dash                    | 28.01.2016        |
| 14     | Raghuvir Singh                  | 28.01.2016        |
| 15     | Amar Golay                      | 28.01.2016        |
| 16     | Shaji Joseph                    | 28.01.2016        |
| 17     | Pramod Khemchandani             | 28.01.2016        |
| 18     | Savita Garg                     | 28.01.2016        |
| 19     | Sita Ram Gupta                  | 28.01.2016        |
| 20     | Kailash Chander                 | 28.01.2016        |
| 21     | Nidhi Sharma Kalia              | 28.01.2016        |
| 22     | Dinesh Kumar                    | 28.01.2016        |

2. The other terms and conditions of the appointment will be the same as applicable to other officers of Grade-I of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B).

SANDEEP SINGH, Administrative Officer (PB-II)

The 14th March 2016

No. 03/PB-PR/2016—In pursuance of Ministry's OM No. Q/CAD/584/08/2015 dated 23<sup>rd</sup> February, 2016, Select list of officers of Grade-III of Stenographers' Cadre of IFS (B) for officiating promotion to Grade II of Stenographers' Cadre of IFS (B), the President is pleased to appoint the following officers belonging to Grade III Stenographers' Cadre of IFS (B) to officiate in Grade II of Stenographers' Cadre of IFS (B) with effect from the date mentioned against their names:—

| S. No. | Name of the official<br>(Smt./Shri) | Date of Promotion |
|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 1      | Rajeev Kumar                        | 28.01.2016        |
| 2      | Ashok Kumar Sahoo                   | 28.01.2016        |
| 3      | Manoj Chandra Joshi                 | 28.01.2016        |

2. The other terms and conditions of the appointment will be the same as applicable to other officers of Grade-II of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B).

SANDEEP SINGH, Administrative Officer (PB-II)

New Delhi, the 9th March 2016

No.16/PB-I/2016—On attaining the age of superannuation, Shri A.K. Datyal (DOB: 02.02.1956), an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), retired from Government service in the afternoon of 29<sup>th</sup> February, 2016.

BHUPAL SINGH, Administrative Officer (PB-III)

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 17th March 2016

No. A.35011/5/2014-Ad.ED—The President of India is pleased to appoint Shri Devinder Kumar Gupta, IRS(IT:91) as Special Director of Enforcement, Delhi in the Pay Band 4 of Rs.37,400-67,000 + G.P. Rs.10,000/- on deputation basis w.e.f. 26.2.2016(AN) for a period up to 29.5.2017, or until further orders, whichever is earlier.

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 16th March 2016

No. A.22011/2/2016-Ad.IA—The President is pleased to appoint Shri Gaurav Kumar Jha (IES:2013) as Research officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 10.03.2016 (FN).

SHOBA BASIL, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 28th January 2016

No. A-42011/21/2015-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No.6/16/2015-CS-I(S) dated 28.01.2016, Shri Vijay Kumar Verma, Section Officer [SOSL:2015(SQ)] is taken on the rolls of this Ministry with effect from the forenoon of 28.01.2016 and until further orders.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

The 3rd February 2016

No.A-46011/02/2014-Estt—The President is pleased to appoint Shri Saurabh Kumar Sinha, as Deputy Director (Technical) on direct recruitment basis in Pay Band-3 of Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs.6600 in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, w.e.f 18.12.2015 (F.N). He will be on probation for a period of two years.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS  
(DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 4th March 2016

No. A-38011/9/2015-Estt.—Shri Gulshan Lal Chopra, Joint Director (OL), Department of Chemicals & Petrochemicals in the Ministry of Chemicals & Fertilizers has retired from the Government Service on attaining the age of superannuation w.e.f. 29.02.2016.

T.P.N. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES  
(NATIONAL CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTING)

Noida-201309, the 31st December 2015

No. A-11019/11/2014(16)-NMRF(Estt.)—In pursuance of MoES letter No. MoES/18/09/2015-Estt Dated 31<sup>st</sup> December, 2015, the President is pleased to upgrade/promote Dr. Ashish Routray, Scientist 'D' (PB-3 Rs. 15600- Rs. 39100 with Grade Pay Rs. 7,600/-) to the grade of Scientist 'E' (PB-4 Rs. 37,400—Rs. 67,000/- with Grade Pay Rs. 8,700/-) of General Central Service Group 'A' post on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) with effect from 01/01/2016 and until further orders.

N.K.BHAGAT, Deputy Secy.

No. A-11019/11/2014(12)-NMRF(Estt.)—In pursuance of MoES letter No. MoES/18/09/2015-Estt Dated 31<sup>st</sup> December, 2015, the President is pleased to upgrade/promote Dr. Saji Mohan Das, Scientist 'E' (PB-4 Rs. 37,400—Rs. 67,000/- with Grade Pay Rs. 8,700/-) to the grade of Scientist 'F' (PB-4 Rs. 37,400—Rs. 67,000/- with Grade Pay Rs. 8,900/-) of General Central Service Group 'A' post on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) with effect from 01/01/2016 and until further orders.

N.K.BHAGAT, Deputy Secy.

No. A-11019/11/2014(19)-NMRF(Estt.)—In pursuance of MoES letter No. MoES/18/09/2015-Estt Dated 31<sup>st</sup> December, 2015, the President is pleased to upgrade/promote Sh. M N Raghavendra Sreevathsa, Scientist 'D' (PB-3 Rs. 15,600—Rs. 39,100/- with Grade pay Rs. 7,600/-) to the grade of Scientist 'E' (PB-4 Rs. 37,400—Rs. 67,000/- with Grade Pay Rs. 8,700/-) of General Central Service Group 'A' post on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) with effect from 01/01/2016 and until further orders.

N.K.BHAGAT, Deputy Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 18th March 2016

No. A.12025/75/2014-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashish Kumar Kakkar to the post of Assistant Professor in the speciality of Pharmacology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 16.09.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No.A.12025/130/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jyoti to the post of Public Health specialist Grade-II(Junior Scale) in the Public Health Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 01.10.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 22nd March 2016

No.A.12025/72/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sparsh Gupta to the post of Assistant Professor in the speciality of Pharmacology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 07.08.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

---

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 21st March 2016

No.38017/1/2016-M.I.—Consequent on the recommendations of Union Service Commission and with the approval of the competent authority, the President is pleased to appoint on promotion, the following Senior Marketing Officers (Group I) in Pay Band-3, Rs.15600-39100+ Grade Pay of Rs.5400/- in the Directorate of Marketing and Inspection with effect from the date mentioned against their names:—

1. Shri M.P. Verma 19.2.2016 (F.N.)
2. Dr. Raja Ram Saini 19.2.2016 (F.N.)
3. Dr. V.S. Yadav 19.2.2016 (A.N.)
4. Shri D.V. Naik 19.2.2016 (A.N.)

MEENA .K. KERKETTA, Under Secy.

No.38017/1/2016-M.I.—On attaining the age of superannuation, Shri C. Nandaian, Assistant Agriculture Marketing Adviser, (Gr. I), Directorate of Marketing & Inspection, Head Office, Faridabad has retired from Government Service on 29.2.2016(AN).

MEENA .K. KERKETTA, Under Secy.

No.38017/1/2016-M.I.—On attaining the age of superannuation, Shri N. Basavaraju, Senior Marketing Officer (Gr. III), Directorate of Marketing & Inspection, Sub Office, Raipur has retired from Government Service on 29.2.2016(AN).

MEENA .K. KERKETTA, Under Secy

---

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS  
(DEPARTMENT OF SPORTS)

New Delhi, the 29th January 2016

No. F. 1-27/2012-ID—In accordance with the provisions of Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupation) Act, 1971 and in partial modification of this Ministry's Notification dated 29<sup>th</sup> November, 2013, Ministry of Youth Affairs and Sports (Department of Sports), Government of India is pleased to appoint Shri Sagar Preet Hooda, Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports (Department of Sports) as Estate Officer with immediate effect for the following Stadia of Sports Authority of India (SAI) :—

1. Jawaharlal Nehru Stadium Complex, Lodhi Road, New Delhi
2. Indira Gandhi Sports Complex, I.P.Estate, New Delhi
3. Major Dhyana Chand National Stadium, Near India Gate, New Delhi
4. Dr. Shyama Prasad Mukherjee Swimming Pool Complex, Willington Crescent Road, New Delhi
5. Dr. Karni Singh Shooting Ranges, Tughlakabad, New Delhi

For other Buildings, Premises, Residential Accommodation and facilities under the jurisdiction of Sports Authority of India (SAI) in Delhi, Secretary, SAI will continue to be the Estate Officer.

The above officers will discharge their duties as Estate Officer in addition to their present work.

VINOD KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th March 2016

No. E(GP)2012/3/8 (Traffic)—The President is pleased to appoint Shri Debashis Naskar(SC) a Group 'B' officer of Traffic Department of SER, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Traffic Service(IRTS), in the panel of 2013-14, with effect from 04.04.2014.

2. Shri Debashis Naskar(SC) would, however, be entitled to monetary benefit in Junior Scale w.e.f. 01.02.2016 only.

SUMAN SHARMA, Director Estt(GP)

The 21st March 2016

CORRIGENDUM

No.E(GP)2014/3/8 (Traffic)—The name appearing at S.No. 26 of the panel for 2014-15 issued vide notification of even number dated 22.02.2016 may be read as "FAIZ MOHAMMAD" instead of "FAIAZ MOHAMMAD".

SUMAN SHARMA, Director Estt(GP)

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi – 110003, the 23rd March 2016

No. 6/3/2016-Admn.I—The President is pleased to appoint Sh. Raghunath to the post of Under Secretary in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600/- on adhoc basis w.e.f. the forenoon of 02.02.2016.

2. The appointment of Sh. Raghunath, Under Secretary will be governed by the terms and conditions stipulated in the Department of Personnel & Training Order No. 5/3/2015-CS.I(U) dated 01<sup>st</sup> February, 2016.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2016  
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)

DOPGIPF—[PART I—SEC. 2]—75 Copies.